Maryada Commercial Enterprises and Investment Company Limited

CIN: L65993DL1982PLC013738, E-mail Id: <u>macel1982@gmail.com</u>

Regd. Off: 106, (1st Floor), Madhuban Tower, A-1, V.S. Block, Shakarpur Crossing, Delhi – 110092

Phone No.: 011-49901667, Website: www.maryadainvestment.in

To, Date: 03.09.2020 Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.

Listing Division,
4th floor, Vibgyor tower,
Opposite Trident Hotel,
Bandra-Kurla Complex,
Mumbai, India- PIN: 400098

<u>Sub: Disclosure pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> Regulations, 2015

Dear Sir / Madam,

As per Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with corresponding circulars and notifications issued thereunder, please find attached herewith newspaper clippings of an advertisement by the Company in compliance of MCA Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, before sending the notice of ensuing AGM (Annual General Meeting) together with the Annual Report to all the members of the Company and all other persons so entitled. The Company published the advertisement in the following Newspapers:

1.Financial Express (All Editions) in English Language on 02.09.2020 2.Jansatta (Delhi Edition) in Hindi Language on 02.09.2020

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours Faithfully
For Maryada Commercial Enterprises and Investment Company Limited

Kuldip Sharma Director DIN: 06746475

Add: K-103, Delhi Rajdhani Apts,

Plot No. 80, Patpargani, IP Extension,

Shakarpur Baramad, East New Delhi – 110092

FINANCIAL EXPRESS



JAYSHREE CHEMICALS LIMITED CIN: L24119WB1962PLC218608

Regd. Office: 31, Chowringhee Road, Kolkata-700016 Phone: 71500500 Fax: 033-22263257

E-mail: jcl@jayshreechemicals.com Website: www.jayshreechemicals.com Addendum to the Notice dated 29thJune, 2020 of the 58th Annual General Meeting ("AGM") o Jayshree Chemicals Limited ("the Company") to be held on Tuesday, the 15th September, 2020 at 3.00 P.M. through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") To the Members/Shareholders,

This is further to our earlier notice dated 29thJune, 2020 for the 58th AGM of the Company, sen by permitted mode. Shri Satish Kapur, who is above 75 years of age, is a Director of the Company since 27th March

2006 and Independent Director of the Company since 27th September, 2014 The Board of Directors at their meeting held on 1st September, 2020, subject to the approval of shareholders, approved continuation of directorship of Shri Satish Kapur (DIN:00051163), Director in terms of Regulation 17(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Accordingly, the approval of Shareholders is sought by way of Special Resolution.

Satish Kapur (DIN:00051163), Director in terms of Regulation 17(1A) of the Securities and Exchange

As the company received a notice in writing from a member proposing continuation of directorship of Shri

Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 subsequent to printing of the Notice of the 58th AGM, an Addendum to the Notice of 58th AGM is being circulated along with the Notice of 58th AGM to the members in terms of the aforesaid Regulation 17(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), and provisions of the Companies Act, 2013. Your Directors recommend the resolution for continuation of directorship of Shri Satish Kapur

(DIN:00051163), Director in terms of Regulation 17(1A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 for your approval in the AGM, as part of the Special Business.

In view of the aforesaid subsequent development, shareholders are requested to take Resolution at the Item No.3 with its Explanatory Statement as added to the AGM notice dated 29th June, 2020. On and from the date hereof, the AGM Notice dated 29th June, 2020, shall always be read in conjunction with this Addendum. A copy of this Addendum is being sent to the stock exchange where the Company's equity shares are listed and uploaded on the website of the Companyi.e www.jayshreechemicals.com.

By Order of the Board S.K.Lahoti Date: 1st September, 2020

All other contents of the AGM Notice dated 29th June, 2020 shall remain unchanged.

Company Secretary ICSI Mem. No. ACS 11399 Registered Office: 31. Chowringhee Road, Kolkata-700016

MARYADA COMMERCIAL ENTERPRISES AND INVESTMENT COMPANY LIMITED Regd Office: 106, (1st Floor), Madhuban Tower, A-1, V.S. Block, Shakarpur Crossing, New Delhi - 110092

> Phone: 91-11-49901667, Website: www.maryadainvestment.in, CIN: L65993DL1982PLC013738 NOTICE

In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 & circular dated April 13, 2020 permitted the holding of AGM through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on Monday, 28th day of September, 2020 at 04:30 p.m. through VC/OAVM.

2019-2020 has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting and remote e-voting facility to all its Members similar to earlier

As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY

If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM along with annual report for FY 2019-2020 and login details for e-voting shall be sent to your registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-2020 and login details for e-voting.

Physical Send a request to Registrar and Share Transfer Agent of the Company.

Holding | Skyline Financial Services Private Limited at admin@skylinerta.com providing Folio number. Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN (Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 21/09/2020.

Please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID Holding or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card).

PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 21/09/2020. The Notice of AGM and Annual Report for FY 2019-2020 will also be available on Company's website at www.maryadainvestment.in and also on the Stock Exchange website at www.msei.in. Members attending the meeting through VC/ OAVM shall

be counted for the purpose of Quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. For MARYADA COMMERCIAL ENTERPRISES AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Place: Delhi Date: 01.09.2020 (Kuldip Sharma) Director

YUKEN INDIA LIMITED

Regd. Off: No. 16-C, Doddanekundi Industrial Area, II Phase, Mahadevapura, Bengaluru - 560 048. E-mail ld: vinayak.hegde@yukenindia.com, Website: www.yukenindia.com Tel: +91 97316 10341

CIN NO.L29150KA1976PLC003017

NOTICE OF 44th ANNUAL GENERAL MEETING E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 44th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 24th September, 2020 at 10.00 AM (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the business as mentioned in the 44" AGM Notice dated 28" August 2020 without the physical presence of the Members at a common venue in compliance with General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRJP/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) ("Circulars") and applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations").

In compliance with the aforesaid Circulars, electronic copies of the Notice of the 44"AGM and the Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent on 31" August, 2020 to all those Members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants as on 26th August, 2020 Notice of the AGM and 44" Annual Report of the Company are available on the website of the Company www.vukenindia.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com The dispatch of the Notice of the AGM along with Annual Report through emails has been completed on 31" August, 2020.

Pursuant to the provisions of section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is providing its Members remote e-voting facility to cast their vote electronically on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of KFin Technologies Private Limited from a place other than the venue of the meeting ("remote e-voting"). All the Members are hereby informed that:

 Members may attend the 44th AGM through VC or watch the live webcast at https://emeetings.kfintech.com by using their remote e-voting credentials. The instructions for participating through VC and the process of E-voting are provided in the Notice of the 44" AGM.

- Cut-off date is 17th September, 2020 for determining the name of members eligible for E voting and dividend on equity shares, if declared at the
- E-voting shall commence on 19" September, 2020 at 09.00 AM (IST) and ends on 23rd September, 2020 at 5:00 PM (IST). During this period, Members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date i.e., 17th September, 2020 may cast their vote electronically as instructed in the Notice of AGM.
- 4. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM through VC but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM.
- In case of any queries pertaining to e-voting or any technical assistance or IT support for participation in the AGM through VC/OAVM may contact Mr. Sai Karthik Tikkisetti, Manager-Corporate Registry, KFin Technologies Private Limited, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Phone No. 040 67161509/Mobile No.7013975422, Email: Karthik.tikkisetti@kfintech.com or toll free No. 1-800-3454-001 or write to einward.ris@kfintech.com or evoting@kfintech.com
- Pursuant to the provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 18" September, 2020 to 24" September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of dividend if approved at the ensuing AGM.

By Order of the Board **CPRANGACHAR** Place : Bangalore Managing Director Date : 01.09.2020

financialexp.epap.in



(AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED COMPANY CIN:L30007TG1991PLC013211) Regd Office:Plot No.38(part) - 41, Hardware Technology Park, TSIIC Layout, Survey No.1/1, Kancha Imarat, Raviryal (Village), Maheswaram Mandal, Ranga Reddy (Dist.), Hyderabad-501 510. Ph: 8414667601.

NOTICE

NOTICE Pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 02rd September 2020 inter-alia, to consider and approve the Un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter ended 30th June 2020.

This notice is also available at the website of the company (www.kernex.in) and at the websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the company are listed: BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

For KERNEX MICROSYSTEMS (INDIA) LIMITED Sd/-Place: Hyderabad PRASADA RAO KALLURI

Company Secretary

ACI INFOCOM LTD

Date : 30-08-2020

Shop No.121, 1st Floor, V-Mall, Off. W.E. Highway, Nr. Sai Hospital, Thakur Complex, Kandivali (East), Mumbai Mumbai -400101 CIN: L72200MH1982PLC175476

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 38THANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Shareholders of ACI Infocom Limited will be held on Monday, 28th September, 2020 at 10.00 a.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') facility to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM.

In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) without physical presence of Members at Common Venue. In compliance with these MCA Circulars and relevant provisions of Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of AGM along with Annual Report 2019-2020 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars dated May 12th 2020. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2019-2020 will also be available on company's website www.acirealty.co.in, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of the AGM. Members attending AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act 2013.

The Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the notice of AGM. Additionally Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting/evoting is provided in the Notice of the AGM.

If your email ID is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case if you have not registered your email address with the Company

Depository, please follow below instructions to: a) Register your email id for obtaining Annual Report and login details for

evoting. Physical Holding | please provide Folio No., Name of shareholder,

scanned copy of the share certificate (front and back). PAN (self-attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to compliance@acirealty.co.in. DEMAT Holding please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16

> digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) compliance@acirealty.co.in.

> > For Aci Infocom Limited

Kushal Chand Jain Date: 01/09/2020 DIN: 03545081 Place: Mumbai **Managing Director**



IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited Regd. Office: Trident Complex, Raikot Road, Barnala-148101, Punjab

CIN: L24116PB1986PLC007030 Ph. +91-1679-244701-07, Fax: +91-1679-244708,

E-mail: contact@iolcp.com, Website: www.iolcp.com

NOTICE OF THE 33" ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE, E-VOTING INFORMATION ETC.

NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the Members

of IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited ("the Company") will be held on Saturday, 26th September 2020 at 11:00 AM IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the notice of the AGM (the "AGM Notice") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Rules made therounder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circulars No. 14/2020 dated 8th April 2020, No. 17/2020 dated 13th April 2020 and No. 20/2020 dated 5th May 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI Circular No. SEBUHO/CFD/CMD1/CIF/P/2020/79 dated 12th May 2020 (collectively referred as

"Relevant Circulars"). In compliance with the Relevant Circulars, the AGM Notice and Annual Report for the financial year 2019-20 have been sent on 1st September 2020 to the Members of the Company whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). The requirement of sending the physical copy of the AGM Notice and Annual Report to the members have been dispensed with vide above said Relevant Circulars. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.lolop.com, on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindla.com and www.nseindla.com respectively and also on the website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotinginia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Listing Regulations and MCA Circulars, the "Company is proving the e-voting facility trough CDSL. This facility being provided to Members holding shares in physical or dematerialized form, as on 'Cut-off date i.e. Saturday, 19th September 2020 to exercise the right to vote by using remote e-voting and e-voting during the AGM, through e-Voting facilities of CDSL, on any or all of the businesses set out in the AGM Notice. Detailed instructions for remote 6-voting facility and 6-voting during the AGM are forming part of the AGM Notice. All the members are informed that:

- 1. The Ordinary and Special Businesses, as set out in the AGM Notice, shall be transacted through voting by electronic means and there shall be no physical voting
- 2. The Cut-off date for determining the eligibility to vote on any business items mentioned in AGM Notice is 19th September 2020
- The remote e-Voting period shall commence on Wednesday, 23rd September 2020.
- The remote e-Voting shall end on Friday, 25th September 2020 at 5.00 pm.
- 5. The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall be be allowed to change it subsequently.
- The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 33rd AGM. shall be allowed to participate in the AGM through VC/QAVM, but shall not be entitled to cast their vote again during the AGM. However, the members participating in the AGM and who had not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not. barred from doing so, shall be entitled to cast their vote through e-voting system available during the AGM
- 7. The Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, 19th September 2020 to Saturday, 20th September 2020 for the purpose of

Any person who becomes the member of the Company after sending the AGM Notice. by email and holding the shares as on Cut-off date i.e. 19th September 2020 may obtain the login credentials by sending a request to the Company / RTA and may cast their votes by following instructions of remote e-voting and e-voting at ASM as mentioned in the AGM Notice. In case of any queries pertaining to e-voting. Members may refer to the Frequently

Asked Questions ("FAQs") and e-Voting User Manual available under help section of CDSL website: www.evolingindia.com/or contact at toll free number 1800-200-5533. In case of any grievances relating to e-voting, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, COSL, 25° Roor, A Wing, Marathon Futures, Martial Mills Compound, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013, E-mailhelpdesk.evering@Cdslindia.com, Tel. No. 022.28023333/28088542 on all working days during business hours. for IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited

Abhay Raj Singh Place : Ludhiana Date: 1st September 2020 **AVP & Company Secretary**

CREMICA AGRO FOODS LIMITED

CIN: L15146PB1989PLC009676 Regd. Office: 455, Sohan Palace, 2nd Floor, The Mall Ludhiana. Punjab-141001, Tel No: 01826-222826

Corporate office: Theing Road Phillaur-Jalandhar, Punjab-144410. Email ID: manager.call@gmail.com, Website: www.cafl.co.in

ADVANCE INTIMATION OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) (a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Cremica Agro Foods Limited ("the Company") is scheduled to be held on Monday, 07th day of September, 2020 at 12,00 Noon through Video Confrencing (VC)/Other Audio Visual Means (DAVM) inter alia, to consider approve and take on record the Unaudited Financial Results along with Limited Review Report of the Company for the Quarter ended on 30th June, 2020. For Cramica Ages Foods Limited

Place: Ludhiana

Date: 62.09.2020

Sprender Kamar Sood (Chairman and Director) DIN: 01091404

荟

DK JAIN

LUMAX INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 2" Floor, Harbans Bhawan-II Commercial Complex. Nangal Raya, New Delhi- 110046 Website: www.lumaxworld.in/lumaxindustries. Tel: 011-49857832 Email: lumaxshare@lumaxmail.com, CIN: L74899DL1981PLC012804

NOTICE Notice is hereby given pursuant to Section 201(2)(b) of the Companies Act. 2013 ("Act") to the Members of the Company that the Company

intends to make an application to the Central Government for its approval under Section 196, 197, 198 read with Schedule V together with Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and other applicable provisions of the said Act. if any, to appoint Mr. Kenjiro Nakazono (DIN: 08753913), who is a non-resident, and do not fulfill the criterion as laid down in Clause (e) of Part I of Schedule V of the Companies Act, 2013, as Executive Director of the Company, for a period of three (3) years w.e.f. 18th June, 2020 on the terms and conditions and remuneration as approved by the Board of Directors in its meeting held on 18" June, 2020. For LUMAX INDUSTRIES LIMITED

Place: New Delhi Date: 01.09.2020

PANKAJ MAHENDRU COMPANY SECRETARY

optiemus OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086 Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar Part-2, New Delhi-110024

Corporate Office: Plot No. 2A, 1" Floor, Sector 126, Noida, Uttar Pradesh-201301 Website: www.optiemus.com, Email: info@optiemus.com, Ph: 0120-6726800

NOTICE

Notice is hereby given that the 27" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, the 30th Day of September, 2020 at 02:00 P.M. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI, to transact the Ordinary and Special businesses as set out in the Notice of AGM. Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

In compliance with the above circulars, only electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2019-20 will be sent to all those shareholders whose e-mail id are registered with the Company/ Depository Participants. Notice of the AGM will also be available on the Company's website at www.optiemus.com and at the websites of the stock exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and at CDSL's website at www.evotingindia.com. Shareholders holding shares in dematerialised mode, are requested to register their

email address and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrars and Share Transfer Agent M/s Beetal Financial and Computer Services Private Limited ('Beetal') at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, New Delhi- 110062, Telephone: 011-29961281-83; Fax: 011 29961284; Email: beetal@beetalfinancial.com Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system. The manner of voting

remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice of AGM which shall also be available on the website of the Company i.e. The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the

AGM and the shareholders attending the AGM who have not cast their vote by remote

The Notice of 27th AGM will be sent to the shareholders in accordance with the applicable laws on their email address shortly.

By Order of the Board OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

Date: September 01, 2020 Vikas Chandra Company Secretary & Compliance Officer Place: Noida (U.P.)

e-voting will be able to vote at the AGM.

A.V.THOMAS AND COMPANY LIMITED CIN: U51109KL1935PLC000024

Registered Office: W-21/674, Beach Road, Alappuzha 688012 email: avt.alapuzha@gmail.com, www.avthomas.com Tel: 0477-2243624, 2243625

NOTICE OF THE 85th ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 85th Annual General Meeting (AGM) of A V Thomas and Company Limited ("the Company") will be held through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") on Monday, the 21st September, 2020 at 11.00 A.M. (IST) in compliance with provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder to transact the businesses as set out in the notice of AGM, sent to the members by email

In view of the continuing Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/OAVM, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), and MCA Circulars, the AGM of the Company will be held through VC / OAVM. Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report of the Company for the

Financial Year 2019-2020 has been sent through E-mail communication on 29th August 2020 to those shareholders who have registered their e-mail addresses with the Company/ Cameo Corporate Services Limited (RTA) or their respective Depositories (NSDL/CDSL). Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 (including rules) that the Register of Members & Share transfer books will remain closed from Tuesday 15th September, 2020 to Monday 21" September, 2020 Monday (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting of the Company. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at investor@cameoindia.com. Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on 12.08.2020 has

recommended a final dividend of Rs.100/- per equity share. The record date for the purposes of final dividend for the Financial Year 2019-20 will be 14.09.2020. The final dividend, once approved by the shareholders in the ensuing AGM will be paid on or before 20.10.2020, electronically through various online transfer modes to those shareholders who have updated their bank account details. For shareholders who have not updated their bank account details. demand drafts/Cheque will be sent out to their registered addresses once the postal facility is vailable. To avoid delay in receiving the dividend, Shareholders are requested to update thei KYC with their depositories (where shares are held in dematerialized mode) and with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (where the shares are held in physical mode) to receive the dividend directly into their bank account on the pay-out date The Annual Report along with the Notice of AGM is available on the Company's website

www.avthomas.com and also available on the website of the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) viz, www.evotingindia.com, The company has provided its shareholders, remote e-voting facility in terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and amendments thereto. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to provide the e-voting facility. Members are informed that:

(i) The Cut-off date to determine eligibility to cast vote by electronic voting is Monday the 14°

all the Shareholders, whether holdings shares in physical form or in dematerialized form. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

facility or remote e-voting as well as voting in the general meeting. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. (iv) The Members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting

the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-ID and Password by sending an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. If the Shareholder is already registered with CDSL for e-voting the Shareholder can use the existing User ID and Password for casting their votes through remote e-voting.

For detailed instruction pertaining to e-voting, members may please refer to the section 'e-voting instructions' in notice of the Annual General Meeting. In case of queries or grievances pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions(FAQs) for the shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evotingindia.com or may contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing- 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatial Mill Compounds, NM Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai- 400 013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800225533 / 022-2305 8542 / 022-23058543 / 022-2305 8738.

Report shall be placed on the Company's website www.avthomas.com and on the website of CDSL. www.evotingindia.com for information of the shareholders.



TERA SOFTWARE LIMITED

Regd. Office: #8-2-293/82/A/1107, Plot No 1107, Road No 55, Jubilee Hills, Hyderabad-33 CIN: L72200TG1994PLC018391, Website: www.terasoftware.com, Tel: 040 2354 7447

NOTICE

NOTICE pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, be and is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, the 7th September, 2020 at 12.30 P.M. at 8-2-293/82/A/1107, Plot No.55, Jubilee Hills, Hyderabad - 500033 to consider and approve Un-audited Financial Results for the 1st Quarter ended 30th June, 2020 and to decide the date of forthcoming Annual General Meeting, among

Pursuant to Regulation 47(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, this intimation is also available on website of BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange Limited (www.nseindia.com) where Company's shares are listed and shall also be available on the website of the Company at http://www.terasoftware.com for TERA SOFTWARE LIMITED Place: Hyderabad Sd/- Shabnam Siddiqui

Date: 31.08.2020 Company Secretary

SWADESHI INDUSTRIES AND LEASING LTD

Munisuvrat Complex, Phase III, Building, A 1, 1st floor, Near Anjur Phata, Bhiwandi Thane Thane MH 421302 CIN: L45209MH1983PLC031246 NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR

36TH ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE is hereby given that the 36th Annual General Meeting of the

Shareholders of Swadeshi Industries And Leasing Limited will be held on

Tuesday, 29th September, 2020 at 12.30 p.m. through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM') facility to transact business as set out in the notice of AGM which is being circulated for convening this AGM. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM) without physical presence of Members at Common Venue. In compliance with these MCA Circulars and relevant provisions of Companies Act 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of AGM along with Annual Report 2019-2020 will be sent only

by electronic mode to those Members whose email addresses are

registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid

MCA Circulars and SEBI Circulars dated May 12th 2020. Members may

note that Notice of AGM and Annual Report 2019-2020 will also be available on company's website www.swadeshiglobal.com, website of Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the notice of the AGM. Members attending AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under section 103 of the Companies Act 2013. The Company is providing the remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions set out in the notice of AGM. Additionally Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM. The detailed procedure for remote e-voting/evoting is provided

in the Notice of the AGM. If your email ID is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sent on your registered email address. In case if you have not registered your email address with the Company

Depository, please follow below instructions to: a) Register your email id for obtaining Annual Report and login details for

scanned copy of the share certificate (front and back),

DEMAT Holding

PAN (self-attested scanned copy of PAN card) AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to compliance@swadeshiglobal.com. please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested

scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested

scanned copy of Aadhar Card)

please provide Folio No., Name of shareholde

compliance@swadeshiglobal.com. For Swadeshi Industries And Leasing Limited

Date: 01/09/2020 Place: Mumbai

Gaurav Jain **Managing Director** DIN: 06794973

ZENOTECH LABORATORIES LTD CIN: L27100TG1989PLC010122

Registered Office: Survey No. 250-252, Turkapally Village, Shameerpet Mandal, Hyderabad – 500 078, Telangana State Phone No.+91-90320 44584/585/586 Website: www.zenotechlab.com Email: info@zenotech.co.in

NOTICE OF 31st ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting (AGM) of the Members of Zenotech Laboratories Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 26, 2020 at 10:30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means("OAVM") without the physical presence of the members at a common venue, in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No.17/ 2020 dated April 13, 2020 and General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020 and other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (" MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members will be able to attend the AGM through VC / OAVM. Members participating through the VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103

includes the Notice of the AGM, is being emailed to all the members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, KFin Technologies Private Limited ("RTA")/Depositories, in accordance with the relevant circulars. The said Annual Report (including Notice of AGM) is also available on website of the Company at www.zenotechlab.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com, being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM. Members can attend and participate in AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in Notice of the AGM. Members are requested to carefully read all the instructions detailed in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or e-voting during

Electronic copy of the Annual Report for the financial year 2019-20 which inter-alia

electronically ("remote e-voting") on the businesses as set forth in the Notice of the AGM. The remote e-voting period shall commence on Wednesday, September 23, 2020 from 09:00 a.m. and shall end on Friday, September 25, 2020 till 05:00 p.m During this period, shareholders of the Company may cast their e-vote remotely by logging on the website at www.evoting.nsdl.com. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The members who could not cast their vote by remote e-voting may also be able to cast their votes using an electronic voting system during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM has been provided in the Notice of the AGM.

The Company is pleased to provide facility to its members, to cast their vote

The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email whose email IDs are registered with RTA/ Depositories. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company's RTA / Depositories, may generate login credentials by following instructions given in the Notes section to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used by the members for attending the AGM through VC/

The members whose email id is not registered or is not updated may register/ update their email in the following manner:

a) Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their email addresses with the Company/ RTA are requested to register/update the same by writing to the Company/RTA with details of folio number and attaching a self-attested copy of the PAN Card at abdul.gafoor@zenotech.co.in or to the Company's RTA at einward.ris@kfintech.com.

b) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/ update their email addresses with the Depositories Participants(s) with whom they maintain their demat account(s).

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Saturday, September 19, 2020 only shall be entitled to avail facility of remote e-voting/ voting during the Meeting through electronic voting system. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting will be able to join the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. Any person who becomes a member of the Company after sending of the Notice and

holds shares of the Company as on the cut-off date i.e. Saturday, September 19,

2020 and whose PAN is not registered with the Company may obtain the e-voting

code for the purpose of remote e-voting by writing to the RTA/ Company at

einward.ris@kfintech.com / abdul.gafoor@zenotech.co.in or may contact the

Detailed procedure for e-voting is provided in the Notice of Meeting. In case of any queries relating to e-voting you may refer to the FAQs for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of https:/ www.evoting.nsdl.com/ or call on toll free no.:1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in. In case of any grievances connected with facility for remote e-voting or e-voting at the AGM, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013, Maharashtra, India or send an email on

NOTICE is also hereby given pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, September 19, 2020 to Saturday, September 26, 2020 (both days inclusive) for the purpose of

The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Mahadev Tirunagari

Practicing Company Secretary as Scrutinizer to scrutinize the voting process (both

evoting@nsdl.co.in/pallavid@nsdl.co.in or may call on +91 22 2499 4545/ 1800-

222-990/ +91 75066 82281.

Place: Hyderabad

Date: September 01, 2020

remote e-voting and e-voting during the AGM) in a fair and transparent manner. On behalf of the Board of Directors For Zenotech Laboratories Limited

Abdul Gafoor Mohammad Company Secretary & Compliance Officer

Place: Chennai

Date: September 01, 2020

(ii) The e-voting period shall be open for three days, commencing at 9.00A.M. (IST) on Friday, the 18th September, 2020 and ending at 5.00 P.M. (IST) on Sunday, the 20th September, 2020 for

right during the AGM. A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be entitled to cast their vote again.

(vi) The Company has appointed Mr. V. Suresh, Practicing Company Secretary, Chennal as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process and voting during the AGM in a fair and

The results of the voting will be declared within 3 days from the conclusion of the 85" Annual General Meeting (AGM). The declared results along with the Scrutinizer's

> Ajit Thomas **Executive Chairman**

New Delhi

(iii) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the

(v) A person, who acquires shares and becomes shareholder of the Company after despatch of

By the order of the Board For A V Thomas and Company Limited

सार्वजनिक उद्घोषणा - शुद्धिपत्र (इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए इंसॉल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया)

विनियमों, 2016 के विनियम 6 के अंतर्गत) एतदद्वारा सुचना दी जाती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, नई दिल्ली, प्रिंसीपल बेंच ने मै. सुमंगलम ईम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड (सीआईआरपी के अंतर्गत) (CIN Number U74899DL1988PTC031180), एक दर्ज कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय खसरा नं. 545, गांव व डाकखाना टिकरी कलमा, नई दिल्ली–110041 के संबंध में दिनांक 02 जून, 2020 के अंतर्गत कारपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

इस संबंध में सार्वजनिक उदघोषणा इस समाचार पत्र में 05 जून, 2020 को प्रकाशित हुई थी। कथित सार्वजनिक उदघोषणा के माध्यम में. मै. समंगलम ईम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडिटर्स को 18 जन, 2020 को या उससे पूर्व अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर (श्री अमित अग्रवाल के होते हुए) को अपने दावे प्रस्तुत करन के लिए एतद्द्वारा आमंत्रित किया गया था। अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली, प्रिंसीपल बेंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अगस्त, 2020 के अनुवर्ती, अधोहस्ताक्षरी श्री देवेंद्र उमराव को मै . सुमंगलम ईम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में प्रस्ताव पेशेवर नियुक्त किया है और श्री अमित अग्रवाल को मै. सुमंगलम ईम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड के आईआरपी के तौर पर प्रतिस्थापित किया है। यह सुचित किया जाता है कि सुमंगलम ईम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड की सीआईआरपी प्रक्रिया से संबंधित दावे/पत्रचार के उददेश्य हेतु नई ईमेल आईडी सुजित की गई है। इस मामले में आगामी सभी पत्राचार के लिए ईमेल आईडी rp.sumanglam@gmail.com (यह ईमेल मेरी व्यक्तिगत पंजीकृत ईमेल आईडी अर्थात् dev.umrao@gmail.com के अलावा है।) सभी संबंधितों को केवल इस ईमेल आईडी के माध्यम से संप्रेषण करने की सलाह दी जाती है। इस नोटिस की तिथि से, सार्वजनिक उदघोषणा में वर्णित अनसार पूर्व ईमेल अर्थात sumanglamimpex.cirp@gmail.com/ amitagcs@gmail.com पर कोई संप्रेषण हटाना, अस्वीकत माना जाएगा और अमान्य समझा जाएगा।

> देवेंद्र उमराव, प्रस्ताव पेशेवर आईपी पंजीकरण सं .: IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-20/12640

दिनांकः २ सितंबर, २०२० स्थान : नई दिल्ली

की जा रही है।

डी1/603, विलयो काउंटी, सैक्टर–121, नोएडा, दिल्ली–एनसीआर फोन: 98100-45874 ईमेल : rp.sumanglam@gmail.com , dev.umrao@gmail.com

स्टरिलट पावर सिस्टम्स लिमिटेड पंजी. कार्यालयः ए-1/51, एलजीएफ, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 CIN: L37200DL2008PLC174911, ई-मेल: info@starlitgroup.net,

सार्वजनिक सचना-12वीं वार्षिक साधारण सभा सुचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के प्रसार को देखते हुए स्टरलिट पावर सिस्टमस लिमिटेड (''कम्पनी'') की 12वीं वार्षिक साधारण सभा (''एजीएम'') कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागु होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) सर्क्युलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल, 2020 तथा 13 अप्रैल, 2020 तथा उसके सर्क्युल तिथि 12 मई, 2020 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) के सर्क्युलर (सामूहिक रूप

वेबसाईट: http://www.starlitpower.com, फोन: +911126102570, 46027970, 46037870

व्यवसायों को निष्पादित करने के लिये सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 9.30 पूर्वा. में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जायेगी। सदस्यगण पुनः ध्यान रखें कि उपरोक्त सर्क्युलर्स के अनुपालन में तथा सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाने के लिये एजीएम की सुचना तथा वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से केवल ऐसे सदस्यों को हीं भेजे जाएंगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं। बीर्स या ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी। पूर्व के व्यवहारों की तरह कम्पनी अपने सदस्यों को ई-

से सर्क्यलर्स वर्णित) के अनपालन में एजीएम की सचना जो उपयक्त समय पर भेजी जायेगी, में निर्दिष्ट

वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पनी के एफवाई 2019–20 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम सूचना की ई-कॉपी कम्पनी की वेबसाईट https://www.starlitpower.com तथा साथ ही बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर उपयुक्त समय पर उपलब्ध होगी।

|सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में शामिल होने का विस्तृत निर्देश एजीएम की सुचना में दी जायेगी। तदनुसार, कपया ध्यान रहे कि कोविड-19 महामारी से संबंधित सरकार प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तिगत रूप से कम्पनी के एजीएम गं उपस्थित तथा शामिल होने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

यदि आपका ईमेल पता कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत नहीं है तो कृपया नीचे वर्णित रूप में उसके पंजीकरण की प्रक्रिया का अनसरण करें:

भौतिक।फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र (फ्रान्ट एंव बैक) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन धारिता कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति). आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति उपलब्ध कराते हुए ईमेल पते के पंजीकरण के लिये mukesh@bigshareonline.com पर कम्पनी वे रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेन्ट्स, विग शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।) कृपया, यदि पहले से वह पंजीकृत नहीं है, तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए हमारे आरटीए (अर्थात्

बिग शेयर सर्विसस प्रा.लि., 302, कुशल बाजार 32-33, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास मूल निरस्त चालान के साथ अपने बैंक का विवरण भेजें। ्डीमैट किपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह से प्रक्रिया का अनसरण

धारिता कर अपना ईमेल पता पंजीकृत कराऐं। कपया कम्पनी द्वारा यदि, घोषित होता है, एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिये अपने डीपी के पास

अपने बैंक के विवरणों को भी अद्यतन कराऐं। सदस्य यह भी ध्यान रखें कि यदि आपका ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसपैन्ट के पास दर्ज है तं

एजीएम की सूचना के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरण भेजा जायेगा। लेकिन, जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं, वे उपरोक्त रूप में ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया का अनुसरण करें। सदस्यगण ध्यान रखें कि रिमोट ई–वोटिंग/एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में वर्णित है

यह जानकारी सभी सदस्यों के सुचनार्थ तथा लाभार्थ तथा एमसीए सर्क्युलर्स तथा सेबी सर्क्युलर के अनुपालन में जार्र

स्टरिलट पावर सिस्टम्स लिमिटेड के लिये

(लवण रहेजा स्थान: दिल्ली कम्पनी सचिव तिथि: 31 अगस्त, 2020 ए-55438

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 1/22, दूसरी मंजिल, आसफ अली रोड, दिल्ली-110002 सीआईएन : L51909DL1990PLC041701

दुरभाष नं. : 9810337978 ई-मेल :oscar@oscar-global.com वेबसाइट :www.oscar-global.net

एजीएम की सूचना एतद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम की सुचना दिनांक 18 अगस्त, 2020 में निर्धारित प्रकार्य पर लेन-देन के लिए ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे पूर्वा. वीडियो कांफ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') के माध्यम से सम्पन की जायेगी। एजीएम की सूचना तथा 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जायेगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट तथा एजीएम की सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट (www.oscar-global.net) तथा www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी। एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट भेजने का कार्य 31 अगस्त, 2020

र्इ-वोटिंग : कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (''एनएसडीएल'') के साथ समझौता किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा नियमों का विवरण नीचे दिया गया है :

(1) सूचना भेजने की समाप्ति तिथि : 31 अगस्त, 2020

सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे सायं

को पूरा किया जा चुका है।

(2) इलेक्ट्रॉनिक साधनों से मतदान प्रारम्भ करने की तिथि एवं समय : शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 को 10.00 बजे प्रातः

(3) इलेक्टॉनिक साधनों से मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समय : सोमवार, 21

(4) सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को सायं 5 बजे के उपरान्त इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा

मतदान की अनुमित नहीं दी जायेगी।

(5) इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान की पात्रता निर्धारण करने हेतु कट-ऑफ तिथि 15 सितम्बर, 2020 है।

(6) सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने के उपरान्त भी साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमित नहीं दी जायेगी।

(७) जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि तक दर्ज हैं केवल वे रिमोट ई-वोटिंग तथा

आम बैठक में मतदान की सविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। (8) सदस्य ध्यान दें कि (अ) मतदान के लिए उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट

ई-वोटिंग मॉड्यूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जायेगा। (ब) 29वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया है वे 29वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान कर

कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात 15 सितम्बर, 2020 तक शेयर धारण करता है वह evoting@nsdl.com पर जारीकर्ता/आरटीए के पास निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(9) कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अर्जित करता है और सचना भेजने के उपरान्त

(10) 29वीं एजीएम की सचना कम्पनी की वेबसाइट www.oscar-global.net तथा www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

(11) इलेक्ट्रॉनिक मतदान निर्देश के लिए सदस्य 29वीं एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देश देखें और इलेक्टॉनिक वोटिंग से सम्बन्धित किसी पछताछ/शिकायत के लिए शेयरधारक www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन्स (एफएक्य) तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यजर मैनअल का सन्दर्भ लें या टोलफ्री नं. : 1800-222-990 पर कॉल करें।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों तथा ग्रीन इनिशिएटिव के अंग के रूप में कम्पनी सुचना(ओं)/दस्तावेज(जों)/वार्षिक रिपोर्ट(टीं) की सेवाएँ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते उपलब्ध कराने/अपडेट करने के लिए कम्पनी सदस्यों को प्रोत्साहित करती है। भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु रिकार्ड अपडेट करने के निवेदन कम्पनी या आरटीए के पास तथा अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने की स्थिति में डिपॉजिटरी भागीदार के पास भेजे जाने हैं।

> निदेशक मण्डल के आदेशानसार ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड

करन कनिका वर्मा डीआईएन : 00034343

(चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक)

बाजा शिपयांड लिमिटंड को परिसमापन बिक्री प्रोक्रया में भागोदारों के लिये अभिरुचि को अभिव्यक्ति आमंत्रण के लिये सार्वजनिक सूचना तिथि 5 अगस्त, 2020 का दूसरा संशोधन

(''एबीजीएसएल'') की परिसम्पत्तियों की परिसमापन बिक्री प्रक्रिया (''बिक्री प्रक्रिया'') में भागीदारी के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति (''ईओआई'') के आमंत्रण के लिये विज्ञापन तिथि 5 अगस्त, 2020 (''प्रथम विज्ञापन'') तथा उसके प्रथम संशोधन तिथि 19 अगस्त, 2020 (''प्रथम संशोधन विज्ञापन'') का दूसरा संशोधन है। प्रथम विज्ञापन प्रथम संशोधन विज्ञापन तथा दूसरा संशोधन विज्ञापन सामृहिक रूप से ''विज्ञापन'' के रूप में इस संदर्भ में एबीजीएसएल के परिसमापक एतदृद्वारा प्रथम विज्ञापन तथा प्रथम संशोधन विज्ञापन तथा यथा-संभव लाग सीमा तक बिक्री पुक्रिया दस्तावेज को अधिशासित करने के लिये निम्न संशोधन तथा स्पर्शीकरण

1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि केवल ऐसे ईओआई आवेदकों जो विशेष रूप से नीचे निर्दिष्ट समूहीकृत परिसम्पत्तियों के लॉट्स (समेकित रूप से ''ग्रुप 1 परिसम्पत्तियाँ'' वर्णित) से शामिल परिसम्पत्ति पार्सल्स के लिये बोली करने में सक्षम हों, को 07 सितम्बर, 2020 तक बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज (www.abgindia.com पर उपलब्ध) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक आशय पत्र ("एलओआई") जमा करना होगाः

क्रम । परिसम्पत्ति पार्सल (ग्रुप 1 परिसम्पत्ति) -आईएनआर करोड़ में वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा अन्य विशेष रूप से हटाई गई परिसम्पत्तियों को छोड़कर ''जैस है जहाँ है आधार'', ''जो भी जैसा है आधार'', ''जो कुछ भी वहाँ है आधार'' पर संयुक्त तथा समग्र रूप से एबीजी श्रेणी घ (शेड्स के साथ) {लॉट नं. 26} सुरत तथा दहेज शिपयार्ड मेटल तथा शेड्स सहित अन्य परिसम्पत्तियाँ विवरणः सुरत तथा दहेज शिपयार्ड दोनों में श्रेणी ख. 1 (क)+ख. 3 (क)+(ख)+(ग) तथा ख. क)+(ख) 4. क)+(ख)+(ग) तथा मेटल शेड्स तथा माल गोदाम का कम्बिनेशन सुरत तथा दहेज शिपयार्ड तथा शेड्स को छोड़कर अन्य परिसम्पत्तियाँ विवरणः श्रेणी ख. 3. (क)+(ख)+(ग) तथा ख. 4 (क)+(ख)+(ग) का कम्बिनेशन श्रेणी ख. 1 (क)+श्रेणी ख. 3 (क)+(ख)+(ग){लॉट नं. 4+8+9+10} सूरत मेटल शेड्स तथा माल गोदाम+सूरत मेटल तथा अन्य निर्दिष्ट परिसम्पत्तियाँ श्रेणी ख. 3. (क)+(ख)+(ग){लॉट नं. 8+9+10} सरत मेटल तथा बी. 3. (शेड्स को छोड़कर) की सभी उप-श्रेणियों सहित अन्य विशिष्ट परिसम्प्रितयाँ श्रेणी ख. 2. (क)+श्रेणी ख. 4 (क)+(ख)+(ग){लॉट नं. 6+12+13-14} दहेज मेटल शेडस तथा माल गोदाम+दहेज मेटल तथा अन्य निर्दिष्ट परिसम्पत्तियाँ श्रेणी खः 4. (क)+(ख)+(ग){लॉट नं. 12+13+14} दहेज मेटल तथा बी. 4 (शेड्स को छोडकर) बी. 4 की सभी उप-श्रेणीयों सहित अन्य निर्दिष्ट परिसम्पत्तियाँ 201 सूरत शिपयार्ड भूमि तथा शेड्स ख. 1. तथा ख. 1 (क) {प्लॉट नं. 3+4} सुरत (भूमि, कार्यालय, कंक्रीट बिल्डिंग) + सुरत मेटल शेड्स + माल गोदाम दहेज शिपयार्ड भूमि तथा शेड्स श्रेणी ख 2 तथा ख 2. (क) {प्लॉट नं. 5+6} दहेज (भूमि, कार्यालय, कंक्रीट बिल्डिंग) + दहेज मेटल शेडस तथा माल गोदाम लॉट नं. 15 श्रेणी ग अथवा श्रेणी ग के अंतर्गत कोई परिसम्पत्ति {प्लॉट नं. 15 से 25} अथवा लॉट नं. 16-25 के समक्ष आरक्षित मुल्य के अनुसा श्रेणी ख. 1 {लॉट नं. 3}

ऐसे सभी ईओआई आवेदकों जो बिक्री की ऐसी सभी परिसम्पत्तियों जो ऊपर परिभाषित ग्रुप 1 परिसम्पत्तियों के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल नहीं है, के लिये लॉट्स को जमा करने पर विचार कर रहे हैं (''छोटे लॉट्स के लिये ईओआई आवेदकों'') उन्हें अग्रिम सूचना तक आशय पत्र जमा करने के लिये अधिकारिता नहीं होगी अथवा उन्हें जमा करने की जरूरत नहीं है।

2. विज्ञापन के प्रथम संशोधन के अंतर्गत शामित संबंधित विवरणों के टैब्युलर सारांश में निम्न संशोधन किये

सुरत शिपयार्ड (भूमि एवं कार्यालय/ कंक्रीट बिल्डिंग)

दहेज शिपयार्ड (भूमि एवं कार्यालय/ कंक्रीट बिल्डिंग)

(xii) पार्सल 12

श्रेणी ख. 1 {लॉट नं. 5}

। ग्रप परिसम्पत्तियों के अंतर्गता ग्रप 1 परिसम्पत्तियों के अंतर्गत पार्सल्स के लिये 07 सितम्बर, 2020 (जब तव

पार्सल्स के लिये आशय पत्र कि कॉर्पोरेट ऋणात्मक की वेबसाईट पर अन्यथा सचना न दी जाये। इस संदर्भ जमा करने की अंतम तिथि में कपया वेबसाईट देखते रहें।

अंतर्गत पार्सल के लिये आशय पत्र जमा करने के अनुपालन में बिक्री प्रक्रिया में शामिल होने के लिये ईएमडी जमा करने की तिथि योग्य व्यक्तियों को बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने के लिये परिसमापक के पास जिसके लिये बोली की जा रही है, उस परिसम्पत्ति लॉट/ पार्सल के आरक्षित मृल्य के 10% का धरोहर राशि भगतान (''ईएमडी'') जमा करना होगा। विशिष्ट नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया www.abgindia.com पर उपलब्ध बिक्री

3. प्रथम विज्ञापन की टिप्पणियों के तीसरे क्लॉज में निम्न संशोधन किये जाते हैं तथा उक्त तीसरें क्लॉज को स्थानापन्न किया गया है जिसे इस प्रकार पढ़ा जायेगा ''स्पष्ट किया जाता है कि भृमि से युक्त पार्सल्स के लिये बोली करने वाले व्यक्तियों को शेड्स की

खरीद में प्राथमिकता दी जायेगी, बशर्ते उसके लिये बोली की गई हो। यह प्राथमिकता बोलीदाता को बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज मं संबंधित क्लॉजेज के अनुसार दी जायेगी। बशर्ते, परिसमापक को ऐसे बोलीदाताओं को प्राथमिकता देने का अधिकार सुरक्षित होगा जो ऐसी

बोलियां जमा करते हैं जिससे स्टेकधारकों के लिये समग्र मुल्य में बढ़ोतरी होती हो। 4. प्रथम विज्ञापन के क्लॉज 5. (घ) में निम्न संशोधन किये जाते हैं तथा उक्त क्लॉज को स्थानापन्न किया जाता है तथा उसे इस प्रकार पढ़ा जायेगाः

'' स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाता केवल दूसरे संशोधन में शामिल तथा बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज

द्वारा यथा अधिशासित (समय समय पर यथा-संशोधन के अनुसार/ परिसम्पत्ति पार्सल्स के अनुसार एबीजीएसएल की परिसम्पत्तियों के लिये ही बोली कर सकते हैं। यह विज्ञापन (समय-समय पर यथा-संशोधित) तथा अन्य विषयों के अतिरिक्त भुगतान की शर्तों, ग्राउण्ड से सामग्री के क्लीअरेन्स, किसी परिसम्पत्ति विशेष को बिक्री में शामिल करने/हटाने से संबंधित विशिष्ट विषय बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज (समय-समय पर यथा संशोधित) के तथा दिवाला तथा

दिवालिया संहिता 2016 के नियमों के अनुरूप होंगे तथा उसके द्वारा अधिशासित होंगे। प्रथम विज्ञापन (प्रथम संशोधन विज्ञापन के अनुसार यथा-संशोधित) के अन्य सभी नियम एवं शर्तें लागू रहेंगे तथा ऐसे प्रत्येक मामले जिसमें इन प्रावधानों का प्रथम विज्ञापन तथा प्रथम संशोधन विज्ञापन के प्रावधानों से खंडन होता है अथवा वह उससे असमान होता है तो इस स्थिति में केवल उसी असंगति की सीमा तक प्रथम विज्ञापन तथा प्रथम संशोधन विज्ञापन के ऐसे असंगत प्रावधानों पर द्वितीय संशोधन के प्रावधान लागू होंगे। तिथि: 31 अगस्त, 2020

सुन्दरेश भट

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के परिसमापक पत्राचार के लिए ई-मेल पताः LQABG@bdo.in; sundareshbhat@bdo.in वेबसाईटः www.abgindia.com

आईबीबीआई पंजीकरण नं. IBBI/IPA-001/IP-P00077/2017-18/10162 आईबीबीआई में पंजीकृत ईमेलः sundareshbhat@bdo.in आईबीबीआई में पंजीकृत पताः बीडीओ रिस्ट्रक्चरिंग एडवॉयजरी एलएलपी, लेवल 9, द रूबी, नार्थ वेस्ट विंग, सेनापित बापत रोड, दादर (डब्ल्यू), मुम्बई 400028, भारत मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड।

(CIN: U65993DL1982PLC013738) पंजी. कार्यालय: 106 (1ला तल), मधुवन टावर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092

फोन: 011-49901667, वेब: www.maryadainvestment.in

कोविड-19 महामारी के अनवरत प्रसार के देखते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्क्युलर तिथि 8 अप्रैल, 2020 एवं सर्क्युलर तिथि 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। इन सर्क्युलरों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की आगामी एजीएम सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 4.30 बजे अप. में वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसे सदस्यों को भेजे जाने की अनुमति है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी, डिपॉजिटरीज के पास पहले से ही पंजीकृत है। कम्पनी पूर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलबध करा रही है।

यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/ डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो एफवाई 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरणों के साथ एजीएम की सुचना आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जायेगी। यदि आपने कम्पनी/ डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करायें।

भौतिक। ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन धारिता की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन का कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति तथ आधार (आधार कार्ड) की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) को उपलब्ध कराते हुए admin@skylinerta.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स स्काईलाइन फाइनांसियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें। कृपया 21.09.2020 को या उससे पूर्व उसे अद्यतन कराएँ।

डीमैट किपया डीमैट खाता के विवरणों (सीडीएसएल-16 डिजिट लाभभोगी आईडी अथवा एनएसडीएल 16 डिजिट डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम क्लाइन्ट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण, पै (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन की गई प्रति) उपलब्ध कराऐं। कृपया 21.09.2020 को या उससे पूर्व उसे अद्यतन कराऐं।

एजीएम की सुचना तथा एफवाई 2019-2020 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.maryadainvestment.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.msei.in तथा पर भी उपलब्ध है। बीसी/ ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी।

मर्यादा कॉमर्सियल एण्टरप्राईजेज एंड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के लिए

स्थानः दिल्ली (कुलदीप शर्मा तिथि: 01.09.2020 निदेशक

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड

CIN - L74993UP1990PLC015721 पंजी. कार्यालय.: 10.5 किमी. माइलस्टोन, रामपुर-बरेली रोड, रामपुर-244901 वेबसाईटः www.indiantoners.com, ई-मेलः info@indiantoners.com फोन नं.: 0595-2356271, फैक्स नं. 0595-2356273

<u> 30</u>वा वाषिक साधारण सभा (एजाएम), पुस्तक बंद होने तथा रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदुद्वारा सचित किया जाता है कि इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 28 सितम्बर, 2020 को 2.30 बजे अप. में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 10.5 कि.मी. माइल स्टोन, रामपुर बरेली रोड, रामपुर-244901 (उ.प्र.) में आयोजित की जायेगी जिसमें उक्त सभा की आमंत्रण सुचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

30वीं एजीएम की सुचना तथा उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020 के साथ रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग के निर्देश की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे सभी सदस्यों जिनके ईमेल पते पत्राचार के लिये कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट के पास पंजीकृत हैं, को भेज दिये गये हैं, बशर्ते किसी सदस्यों ने उसकी हार्ड कॉपी के लिये अनुरोध नहीं किये हों। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये हैं, उक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियाँ स्वीकृत पद्धत्ति में उन्हें भेजी गई हैं।

एतद्द्वारा पुनः सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सुचीयन विनियमनों के विनियमन 42 के अनुपालन में कम्पनी की 30वीं वार्षिक साधारण सभा के उद्देश्य से सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पस्तकें 24 सितम्बर, 2020 से 27 सितम्बर, 2020 (दोनों दिवस सिहत) तक बंद रहेंगे।

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) संशोधन नियमावली, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी, के नियम 20 तथा स्टॉक एक्सचैंजों के साथ सूचीयन विनियमन के विनियमन 44 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार यह कम्पनी सुचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा सहर्ष अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उक्त नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं:

1. सूचना के प्रेषण की पूर्णता की तिथिः 01.09.2020 2. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान शुरू होने की तिथि एवं समयः 25

सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) 3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान समापन की तिथि एवं समयः 27 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी)

4. 27 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. (आईएसटी) के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट ई-वोटिंग) से मतदान की अनुमति नहीं दी जायेगी। 5. रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग की प्रक्रिया के साथ 30वीं एजीएम की सूचना एनएसडीएल

की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। 6. ई-वोटिंग से संबंधित विषयों के लिये सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का विवरणः श्री एस.सी. सिंघल, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से investors@indianton-

ers.com/टेलीफोन नं. 450/7000 evoting@nsdl.co.in/amitv@nsdl.co.in/ pratikb@nsdl.co.in, फोनः 022-24994738/ 24994600/ एनएसडीएल हेल्पडेस्क से टेली. नं. (टोल फ्री) 1800-222-990 पर। . रिमोट ई-वोटिंग तथा वोटिंग प्रक्रिया के लिये श्री वारानसी हरि (सीपी नं. 8244), कार्यरत

कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।

यदि कोई व्यक्ति सुचना के प्रेषण के बाद सदस्य बनते हैं तथा कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात् 21.9.2020 को शेयर धारित करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर फिर तदनुसार अपना मतदान कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के लिये एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने के लिये वे अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पास्वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

एजीएम में मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों, वे एजीएम में शामिल हो सकते हैं किन्त पनः मतदान के लिये अधिकृत नहीं होंगे।

शेयरधारकों का मताधिकार 21.9.2020 की कट-ऑफ तिथि (अभिलिखित तिथि) को कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी शेयरों के अनुपात में होगा

बोर्ड के आदेश से

इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड के लिये (एस.सी. सिंघल) स्थानः नई दिल्ली तिथिः 01.09.2020 कम्पनी सचिव

डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन: L74140DL1994PLC304881 पंजीकृत कार्यालय : 916, टॉवर-2, पर्ल ओमेक्स बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, भारत, दूरभाष : 011-47012010 ई-मेल : dpms.kolkata@gmall.com वेबसाइट : www.dynamicwealthservices.com

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 41(1)(ए) के अनुसा एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ–साथ 30 जून को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामो पर विचार तथा अनुमोदन एवं कथित विनियमों के विनियम 33 के तहत वांछित विधिक लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा हेतु कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक) मंगलवार, 8 सितम्बर, 2020 को 11.00 बजे प्रातः कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 916, टॉवर-2, पर ओमेक्स बिल्डिंग, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034, भारत पर आयोजित की जायेगी। इस सूचना की प्रति कम्पनी की वेबसाइट www.dynamicwealthservices.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइर

कृते डायनेमिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एण्ड सर्विसेज लिमिटेड

नेहा शर्मा

(कम्पनी सचिव

पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड (पूर्व में प्रुडेन्शियल ग्रेनाइट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड विदित) पंजी. कार्याः ए-30, एस-11, दुसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

www.pgil.com

तिथि : 2 सितम्बर, 2020

www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध होगी।

CIN: L74899DL1993PLC056421 pgindustryltd@gmail.com

कोविड-19 महामारी के अनवरत प्रसार के देखते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्यूलर तिथि 5 मई, 2020 के साथ पठित सर्क्यूलर तिथि 8 अप्रैल, 2020 एवं 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') अथवा अन्य ऑडियो-बिजुअल माध्यमो (''ओएवीएम'') के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनमति दी है। इन सर्क्यलरों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की आगामी एजीएम रविवार, 27 सितम्बर, 2020 को 12.00 बजे दोपहर में वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी।

उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सुचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसे सदस्यों को भेजे जाने की अनुमति है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पहले से ही पंजीकत है। कम्पनी पर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा उपलबध करा रही है।

यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो एफवाई 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरणों के साथ एजीएम की सुचना आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जायेगी। यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवाई 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करायें।

भौतिक ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गङ् धारिता प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन का कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड) सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए info@masserv.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ शेयर अंतरण एजेन्टस एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनरोध भेजें। कपया अपने फोलियों नं. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ हमारे आरटीए, एमएएस सर्विसेस लिमिटेड टी-34, 2रा तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020 के पास मूल निरस्त चैक वे साथ अपना बैंक का विवरण भेजें (यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं हो।)

कृपया 15.09.2020 को या उससे पूर्व उसे अद्यतन करा लें। डीमैट कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनुसार अपना ई-धारिता मेल पता पंजीकृत कराऐं।

कृपया 15.09.2020 को या उससे पूर्व उसे अद्यतन करा लें। एजीएम की सूचना तथा एफवाई 2019-2020 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.pgil.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। बीसी/ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी

अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी। पी जी इंडस्टी लिमिटेड के लिये

स्थानः नई दिल्ली देवेन्दर कुमार तिथि: 01.09.2020 (कम्पनी सचिव एवं अनपालन अधिकारी

TRINITY LEAGUE INDIA LIMITED

Regd. Off.: A-23, Mandakini Enclave, Alaknanda, GK II, New Delhi-110019 Contact- 011-40562329, website: www.trinityasia.in E-mail: trinityleague@trinitygroup.ind.in Notice of Annual General Meeting t is hereby informed that the 32rd Annual General Meeting (AGM) of Trinity League India

Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility. The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. The

imited will be held on Monday the 28th day of September 2020 at 12,00 PM. Through Video

instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or CDSL/NSDL ("Depositories") and will also be available on the Company's website www.trinityasia.in and website of the Bombay Stock Exchange i.e. at

Members who have not registered their e-mail addresses and in consequence the Annual

Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get

their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, by sending mail on investor@beetalfinancial.com for the same along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the e-voting instructions. The remote e-voting period will commence from 25th September, 2020 at 10:00 am and will end at 5.00 pm on 27th September, 2020. During this period the eligible shareholders of the

Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by CDSL for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 27, 2020. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote evoting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Monday, September 21, 2020. Any person, who becomes a

member of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to investor@beetalfinancial.com to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM. Members holding shares in electronic form are requested to intimate any change in their bank mandates to their Depository Participants with whom they are maintaining their demat accounts. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. The Members holding shares in physical form are requested to advise any

change in their bank mandate immediately to Beetal House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi- 110062. By Order of the Board of Directors, For Trinity League India Limited

Place: New Delhi Date: September 02, 2020 Piyush Kumar Srivastava Company Secretary

VLS FINANCE LIMITED

Regd. Office: 2nd Floor, 13, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-110065, Ph: 91(11) 46656666 Fax: 91(11) 46656699 CIN: L65910DL1986PLC023129, Email: vls@vlsfinance.com, Website: www.vlsfinance.com

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL DESILITS FOR THE OLIAPTED ENDED 30TH JUNE 2020

(Rs. in Lakhs except Earning per share da						
Particulars	STANDALONE Quarter Ended			CONSOLIDATED Quarter Ended		
	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited
		1	2	3	4	5
Revenue from continuing operations	626.03	6,149.29	245.92	727.19	6,818.47	266.51
Net Profit/(Loss) for the period before tax (Before Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	409.69	3,785.89	(431.31)	489.53	4,433.82	(429.01)
Net Profit/(Loss) for the period before tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	409.69	3,785.89	(431.31)	489.53	4,433.82	(429.01)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from continuing operations	1,174.85	7,683.55	(185.05)	1,186.31	8,273.54	(183.70)
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from discontinuing operations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Profit/(Loss) for the period after tax (After Exceptional Items and or Extraordinary items) from						
continuing and discontinuing operations	1,174.85	7,683.55	(185.05)	1,186.31	8,273.54	(183.70)
Total Comprehensive Income for the period(Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income for the period)	7,559.53	4,107.64	2,808.91	11,973.32	8,290.79	7,662.58
Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- Per Share)	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42	3,878.42
Earning Per Share (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
Basic (not annualised) (**)	3.04	19.87	(0.48)	3.07	21.40	(0.48)
Diluted (not annualised) (**)	3.04	19.87	(0.48)	3.07	21.40	(0.48
Earning Per Share (after Extraordinary items) (of Rs.10/-each)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)	(**)
Basic (not annualised) (**)	3.04	19.87	(0.48)	3.07	21.40	(0.48)
Diluted (not annualised) (**)	3.04	19.87	(0.48)	3.07	21.40	(0.48)

Note:

Place: New Delhi

Date: 31-08-2020

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Periodical Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of Quarterly/Annual financial Results are available on the website of the Company (www.vlsfinance.com) and on the website of the stock exchanges viz. BSE Ltd (www.bseindia.com), the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com) and www.cse-india.com. The specified items of the standard financial results of the Company for the guarter ended June 30, 2020 are given above.

2. The Company has adopted Indian accounting standards ('IND AS') with effect from 1 April, 2019 and consequently, these financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid

down in 'IND AS 34-interim Financial Reporting' prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued there under and other accounting principles generally accepted in India. 3. The above un-audited financial results for the guarter ended 30.06.2020 were approved and taken on record in the Board meeting held on 31.08.2020 after being reviewed and recommended by the Audit Committee on the

same date and have been subjected to limited review by the statutory auditor's of the Company. 4. The figures for the quarter ended 31st March, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year-to-date figures up to third quarter of the relevant financial year.

Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period classification.

By order of the Board for VLS Finance Limited S.K. AGARWAL **Managing Director** DIN:00106763

शुद्धिपत्र नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड CIN: L92111DL1988PLC033099 पंजीकृत कार्यातय : बी 50-ए, दुसरी मंजिल, भर्चना कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश - ।, नई दिल्ली-110048 फोन: (91-11) 4157 7777, 2644 6666 फैक्स: 49862990 ई. मेल: corporate@ndtv.com:

वेबसाइट: www.ndtv.com

कृपया दिनांक 01/09/2020 को इस समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन "32वीं वार्षिक साधारण बैठक और रिमोट ई-वोटिंग के लिए सचना " का सन्दर्भ ले। कृपया धयान दे की विज्ञापन में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय : 402, अर्चना, बी ब्लॉक रोड, अर्चना, प्रेंटर केलाश - I, नई दिल्ली - 110048 की जगह **"बी 50-ए.** दुसरी मंजिल, अर्चना कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर कैलाश - 1. नई दिल्ली-110048" पढ़ा जाये। कृते नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड

विज्ञापन के शेष विषय वस्तु पूर्ववत रहेंगे। शिव राम सिंह स्थान : नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांक: सितम्बर 01, 2020

एमको इंडिया लिमिटेड पंजीकत कार्यालय : 10795, शॉप नं. 7, जीएफ डांडेवालान रोड. रेक्सीन बाजार, नबी करीम, नई दिल्ली-110055 CIN: L74899DL1987PLC029035 फोन नं : 011 - 23636320 ई-मेल : amco.india@ymail.com वेबसाइट : www.amcoindialimited.com

एतदद्वारा सुचित दी जाता है कि भारतीय प्रतिभूत एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 29 एव 33 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक ब्रघवार, 9 सितम्बर, 2020 को सी-53-54. सेक्टर-57, फेज-III, जिला गौतमबंध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, स्थित कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें, अन्य विषयों के साथ, 30 जुन, 2020 को समाप्त तिमाही हेत् कम्पनी के अ-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.amcoindialimited.com, और बीएसई इंडिया की वेबसाइट www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध वास्ते एमको इंडिया लिमिटेड

स्थान : नोएडा, यू.पी. राजीव गुप्ता विनांक : 01.09.2020 पूर्ण कालिन निदेशक

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 01.09.2020